



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 15—नवम्बर 21, 2003 (कार्तिक 24, 1925)
No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 15—NOVEMBER 21, 2003 (KARTIKA 24, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

दो इस्टीमेट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया

नई दिल्ली, दिनांक 04 नवम्बर 2003

नं. 13-सी.ए./परीक्षा/आई.एस.ए./दि/2003--चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 [जो अधिसूचना संख्या-1-सी.ए.(7)/59/2001 दिनांक 28 सितम्बर, 2001 के द्वारा संशोधित किया गया] के नियम-7, अनुसूची 'ए' के अनुसार दि कौंसिल ऑफ दि इस्टीमेट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया को अधिसूचना जारी करने में प्रसन्नता है कि इनफोरमेशन सिस्टम ऑडिट कोर्स की निर्धारण परीक्षा (असेसमेन्ट टेस्ट) दिनांक 27.12.2003 को सत्र 8 बजे से 12 बजे दोपहर, को निम्नलिखित केन्द्रों पर होगी। बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी निवेदन करते हैं।

परीक्षा केन्द्र :--

- | | | | | |
|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------|
| 1. आगरा | 2. अहमदाबाद | 3. अहमदनगर | 4. इलाहाबाद | 5. अलवर |
| 6. अम्बाला | 7. अमृतसर | 8. ओरंगाबाद | 9. बैंगलोर | 10. बेलगांम |
| 11. भीलवाड़ा | 12. बीकानेर | 13. भोपाल | 14. चंडीगढ़ | 15. चेन्नई |
| 16. कोयम्बटूर | 17. देहरादून | 18. धनबाद | 19. दुर्ग | 20. ईरनाकूलम |
| 21. गाजियाबाद | 22. गोवा | 23. गन्दूर | 24. गुवाहाटी | 25. ग्वालियर |
| 26. हुबली | 27. हैदराबाद | 28. इंदौर | 29. जयपुर | 30. जलगाँव |
| 31. जम्मू | 32. जमशेदपुर | 33. जोधपुर | 34. कानपुर | 35. कोलकाता |
| 36. कोल्हापुर | 37. लखनऊ | 38. लुधियाना | 39. मदुरई | 40. मैंगलोर |
| 41. मुरादाबाद | 42. मुम्बई | 43. मैसूर | 44. नागपुर | 45. नई दिल्ली |
| 46. पूना | 47. रायपुर | 48. राजकोट | 49. रांची | 50. सेलम |
| 51. सिलिगुड़ी | 52. शोलापुर | 53. सूरत | 54. त्रिचरापल्ली | 55. त्रिचुर |
| 56. उडुपी | 57. उदयपुर | 58. बड़ोदरा | 59. वाराणसी | 60. वेलोर |
| 61. विजयवाड़ा | 62. विशाखापटनम | 63. यमुना नगर | | |

परिषद अपने विशेषाधिकार के अन्तर्गत किसी भी परीक्षा केन्द्र को किसी भी समय बिना कोई कारण दिए रद्द कर सकती है। यह परीक्षा इंस्टीट्यूट के केवल पात्र सदस्य जो कि पहले से ही पंजीकृत है, के लिए है।

इस परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क 1,000/- रुपये (एक हजार रुपये मात्र) है।

परीक्षा शुल्क की राशि का भुगतान बैंक के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा होना चाहिए। आवेदन पत्र उपयुक्त शुल्क के डिमांड ड्राफ्ट के साथ इस प्रकार भेजा जाना चाहिए कि वह संयुक्त सचिव (परीक्षा) के कार्यालय में दिनांक 02.12.2003 तक पहुँच जाए। दिनांक 02.12.2003 के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

इस परीक्षा के लिए आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र पर ही किया जाना चाहिए जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव (परीक्षा) के नई दिल्ली स्थित कार्यालय से 25/- रुपये प्रति आवेदन पत्र भुगतान करने पर मिल सकता है। आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट के रीजनल और ब्रांचों के कार्यालयों में भी उपलब्ध है और नकद भुगतान करने पर 12 नवम्बर 2003 से प्राप्त किये जा सकते हैं। इसके अलावा आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट की वेबसाइट www.icai.org से भी प्रिंट किये जा सकते हैं तथा आवेदन पत्र के मूल्य 25/- को जोड़कर डिमांड ड्राफ्ट 1025/- रुपये का भेजा जाना चाहिए।

वी. शेखादि
संयुक्त सचिव (परीक्षा)

छावनी बोर्ड

बैरकपुर, दिनांक

2003

सं. बी./1/5/प्लाईंग फी--बंगाल सरकार की अधिसूचना संख्या 14617 पी. तारीख 29 नवम्बर, 1935 के साथ प्रकाशित बैरकपुर छावनी में वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए मोटर या अन्य यानों के चालन को विनियमित करने वाली उपविधियों का और संशोधित करने के लिए कतिपय उपविधियां छावनी अधिनियम 1924 की धारा 284 की उपेक्षानुसार छावनी बोर्ड बैरकपुर सूचना सं. बी./1/5/चालन फीस/125 तारीख 17.4.2003 के अधीन ऐसे सभी व्यक्तियों से 30 दिनों तक आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित की गई थी।

और उक्त प्रारूप के संबंध में जन साधारण से कोई रुकावट नहीं आई।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 284 की उपधारा (1) उपेक्षानुसार उपविधियों के उक्त प्रारूप को सम्यक रूप से अनुमोदन एवं पुष्टि कर दी है।

अतः छावनी बोर्ड, छावनी अधिनियम 1924 की धारा 282 के खण्ड (25) और (26) और धारा 283 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैरकपुर छावनी बोर्ड में वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए मोटर या मोटरयानों के चालन को विनियमित करने वाली उपविधियों का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित उपविधियां बनाता है :

उक्त उपविधियों में, उपविधि 65 के खण्ड 1 के उपखण्ड (1) और (2) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| (1) 6 चक्कों वाली मोटर के लिए | रु. 200/- प्रति वर्ष |
| (2) 4 चक्कों वाली मोटर के लिए | रु. 150/- प्रति वर्ष |
| (3) 3 चक्कों वाली औटो रिक्शा के लिए | रु. 100/- प्रति वर्ष |

ए. आर. कुरेशी
छावनी अधिशासी अधिकारी
बैरकपुर

विशेष सूचना : मूल उपविधियां प्रकाशित बंगाल सरकार

नोटिफिकेशन

सं. 14617 पी. तारीख 29 नवम्बर, 1935

संशोधित भारत की सूची संख्या बी/1/5/प्लाईंग फी भाग 3, खण्ड-4, तारीख 12 अक्टूबर, 1991 और 3 अगस्त 1996

The Institute of Chartered Accountants of India

New Delhi-110002, 4th November 2003

No. 13-CA (EXAM)/ISA/D/2003 :- In pursuance of Rule 7 of Schedule 'F' to Regulation 204 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 (as amended vide Notification No. 1-CA(7)/59/2001 dated 28th September, 2001), the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify that the Information Systems Audit (ISA) Course Assessment Test will be held on 27th December, 2003 from 8.00 am to 12.00 noon at the following centres provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each centre :-

EXAMINATION CENTRES :

1. AGRA	2. AHMEDABAD	3. AHMEDNAGAR	4. ALLAHABAD
5. ALWAR	6. AMBALA	7. AMRITSAR	8. AURANGABAD
9. BANGALORE	10. BELGAUM	11. BHILWARA	12. BIKANER
13. BHOPAL	14. CHANDIGARH	15. CHENNAI	16. COIMBATORE
17. DEHRADUN	18. DHANBAD	19. DURG	20. ERNAKULAM
21. GHAZIABAD	22. GOA	23. GUNTUR	24. GUWHATI
25. GWALIOR	26. HUBLI	27. HYDERABAD	28. INDORE
29. JAIPUR	30. JALGAON	31. JAMMU	32. JAMSHEDPUR
33. JODHPUR	34. KANPUR	35. KOLKATA	36. KOLHAPUR
37. LUCKNOW	38. LUDHIANA	39. MADURAI	40. MANGALORE
41. MORADABAD	42. MUMBAI	43. MYSORE	44. NAGPUR
45. NEW DELHI	46. PUNE	47. RAIPUR	48. RAJKOT
49. RANCHI	50. SALEM	51. SILIGURJ	52. SOLAPUR
53. SURAT	54. TIRUCHIRAPALLI	55. TRICHUR	56. UDUPI
57. UDAIPUR	58. VADODARA	59. VARANASI	60. VELLORE
61. VIJAYAWADA	62. VISAKHAPATNAM	63. YAMUNANAGAR	


The Council reserves the right to withdraw any centre at any stage without assigning any reason.

The above test is open only to eligible Members of the Institute who are already registered with the Institute for the said course.

The fees payable for the above Assessment Test is Rs. 1000/-.

Payment of fees for the Assessment Test should be made only by Demand Draft. The Demand Draft may be of any Scheduled Bank and should be drawn in favour of the Secretary, The Institute of Chartered Accountants of India, payable at New Delhi only. Application together with the prescribed fee be sent so as to reach the Joint Secretary (Examinations) at New Delhi on or before 2nd December, 2003.

Applications for admission to the Assessment Test is required to be made in the prescribed form which may be obtained from the Joint Secretary (Examinations), the Institute of Chartered Accountants of India, Indraprastha Marg, New Delhi - 110 002 on payment of Rs.25/- per application form. The forms are also available in the Regional and Branch Offices of the Institute and can be obtained therefrom on cash payment on or from 12th November, 2003. Alternatively, the format of application form can be downloaded from the website of the Institute viz. www.icai.org and the cost of the application form of Rs. 25/- can be added to the Assessment Test fee of Rs. 1000/- and the Demand Draft for Rs. 1025/- has to be sent. The last date for receipt of duly filled in application forms is 2nd December, 2003. The application together with the prescribed fee should be sent by Speed Post/Registered Post to the Joint Secretary (Exams.), New Delhi. The applications received after 2nd December, 2003 will not be entertained under any circumstances.



(V. SESHADRI)
JOINT SECRETARY (EXAMS.)

CANTONMENT BOARD

Barrackpore, the 2003

No. B/I/5/Plying Fee—Whereas certain draft Bye-laws regulating the playing of motor or other vehicles for commercial purpose in the Barrackpore Cantonment published with Government of Bengal Notification No. 14617P dated 29th November, 1935 were published as required by Section 284 of the Cantonments Act, 1924, under the Cantonment Board, Barrackpore notice No. B/I/5/Plying Fee/125 dated 17th April, 2003 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of thirty days from the date of the published of the said notice.

And whereas, no objection or suggestions were received from the public on the said draft by the Cantonment Board within the period so specified.

And whereas the Central Government have duly approved and confirmed the said draft of the Bye-laws as required by sub-section (1) of Section 284 of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (25) and (26) of Section 282, Section 283 and 284 of the said Act, the Cantonment Board hereby makes the following Bye-laws regulating the plying of motor or other vehicles for commercial purpose in the Barrackpore Cantonment, namely :—

In the said Bye-laws for sub-clauses (i) and (ii) of clause 1 of Bye-laws 65, the following shall be substituted, namely :—

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| "(i) For 6 wheeler motor vehicle | Rs. 200/- p.a. |
| (ii) For 4 wheeler motor vehicle | Rs. 150/- p.a. |
| (iii) For 3 wheeler Auto Rickshaw | Rs. 100/- p.a." |

A. R. QURESHI
Cantonment Executive Officer
Barrackpore

Foot Note : The principal Bye-laws were published with Government of Bengal Notification No. 14617P dated 29.11.1935 and subsequently amended vide Nos. B/I/5/Plying Fee published in the Gazette of India, Part-III, Section-4 dated 12 October, 1991 and 3rd August, 1996.